

CIN - L29130HR1986PLC081555

Corporate Office: Millennium Plaza, Tower-B, Sushant Lok-1, Sector-27, Gurugram -122009, Haryana, INDIA Tel.: +91(124) 4715100 E-mail: secretarial@thehitechgears.com

May 31, 2025

The Manager,
Listing Department,
National Stock Exchange of India Limited,
"Exchange Plaza", C-1, Block – G
Bandra - Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai – 400051
Symbol – HITECHGEAR

The Manager, Listing Department, BSE Limited, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai – 400001 Scrip code – 522073

Subject: Intimation of publication of Audited Financial Results for the quarter and year ended March 31, 2025, in Newspapers.

Dear Sir/Ma'am,

Pursuant to Regulation 33, 47 and other applicable regulations of SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Audited Consolidated Financial Results along with key standalone financial information of the Company for the quarter and year ended March 31, 2025, was duly published in the following newspapers:

Business Standard (National daily newspaper in English)
 Business Standard, NCT of Delhi and Haryana
 May 31, 2025
 May 31, 2025

(Regional daily newspaper in Hindi)

The copy of the published notice is enclosed herewith for your reference.

You are requested to take the above information on records and oblige.

Thanking You

Yours faithfully,

For The Hi-Tech Gears Limited

Naveen Jain Company Secretary & Compliance Officer Membership No. A15237

Encl.: As above

You should write code till late in life'

HI-TECH GEARS LIMITED

CIN: L29130HR1986PLC081555
Regd. Off.: Plot No. 24,25,26, IMT Manesar, Sector-7, Gurugram-122050, Haryana
Corp. Off.: Millennium Plaza, Tower-B, Sushant Lok-I, Sector-27, Gurugram-122002, Haryana. Tel.: + 91(124) 4715100 Fax: + 91(124) 2806085

Website: www.thehitechgears.com E-mail: secretarial@thehitechgears.com Statement of Audited consolidated financial results for the

	quarter and year ended March 31, 2025									
			(₹	n Million, except	per share data)					
S. No.	Particulars	Quarter ended 31/03/2025 (Audited)	Quarter ended 31/03/2024 (Audited)	Year ended 31/03/2025 (Audited)	Year ended 31/03/2024 (Audited)					
1.	Total income from operations	2,191.79	2,902.42	9,386.81	11,168.35					
2.	Net Profit/ (Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	172.45	212.39	627.66	609.25					
3.	Net Profit/ (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	172.45	211.88	627.66	1,379.31					
4.	Net Profit/ (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	97.16	178.26	403.63	1,142.53					
5.	Total Comprehensive income for the period [(Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	14.10	146.01	260.77	1,160.49					
6.	Equity Share Capital	187.93	187.78	187.93	187.78					
7.	Reserves/other equity as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year			4,647.82	4,473.75					
8.	Earning per share (of ₹10/- each) (for continuing and discontinued operations) - (Not annualised for the quarter)									
	(a) Basic: (b) Diluted:	5.17 5.17	9.49 9.48	21.49 21.46	60.86 60.73					

NOTES:-

- 1) The above Audited Consolidated Financial Results have been reviewed by the Audit Committee at their meeting held on May 29th, 2025 and thereafter approved by the Board of Directors in their meeting held on May 29th, 2025. 2) The Board of Directors have recommended a final dividend of Rs. 5/- (Rupees Five Only) per equity shares of Rs. 10/- (Rupees Ten only) each, i.e. 50% on the paid up share capital of the Company subject to the approval of the members at their Annual General Meeting.
- The Nomination and Remuneration Committee of the Board of Directors of the Company vide its resolution dated February 12, 2025, has approved allotment of 15,031 Equity shares of Rs. 10/- each to the eligible employees of the Company (Including subsidiary companies) pursuant to "The Hi-Tech Gears Limited Stock Incentive Plan, 2021". Therefore, the paid-up equity share capital of the Company has increased from Rs. 18,77,81,860/-consisting of 1,87,78,186 equity shares of Rs. 10/- each. to Rs. 18,79,32,170/-consisting of 1,87,93,217 equity shares of Rs. 10/- each.
- The above is an extract of the detailed format of Consolidated Financial Results for the quarter and year ended March 31, 2025 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations Disclosure Requirements) Regulations, 2015.
- Other Comprehensive Income mentioned in point number 5, includes loss amounting to Rs 116.20 million on account of impairment in fair valuation of investment in the equity shares of Altigreen Propulsion Labs Private Limited based on the share valuation report of registered valuer.
- 6) Additional information pursuant to Regulation 47(1)(b) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 on Key standalone Audited financial information of the company is given below:

Particulars	Quarter ended	Quarter ended	Year ended	Year ended
	31/03/2025	31/03/2024	31/03/2025	31/03/2024
	(Audited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)
Revenue from operations and other income	1,642.79	2,067.62	6,696.12	7,892.93
Profit before tax	184.57	196.47	635.69	647.26
Profit after tax	133.61	162.18	473.78	492.69

 The full format of the Financial Results for the quarter and year ended March 31, 2025 is available on the Stock Exchanges websites (www.nseindia.com and www.bseindia.com) and the Company's website (www.thehitechgears.com). The same can be accessed by scanning the QR code provided below.

For and on behalf of the Board of Directors The Hi-Tech Gears Limited

Deep Kapurla **Executive Chairman** Date : May 29, 2025 (DIN: 00006185)

COMPANIES

Boston-based ecommerce company Wayfair sells furniture and home goods online. It started operations in its India technology development centre (TDC) two years ago and, unlike many other bal capability centres (GCCs), it is not in any hurry to scale up its headcount amatically. In a conversation with Avik Das in Bengaluru, **Rohit Kaila**, head technology and site leader, Wayfair India TDC, talks about the centre's

rrney, how the lifecycle of a software developer is changing, and why an

nat were the main reasons for ting up the technology centre

gineer must not stop coding. Edited excerpts:

We were looking to set up a centre sides the ones we have in Toronto d the Bay Area. But we wanted a iled location where we had good ent as we were doing a lot of tech nsformation. We wanted talent of a tain bar and at a scale. That is how centred on India when we started erating two years ago. The expectan was to build a TDC that is on a par th any other and it is now the larst for us outside of our Boston adquarters.

nat are some of the critical nctional areas of this technology

There are primarily four functions ound which we operate: Customer, oplier, supply chain, and the platm, which drive everything. On

supply chains, a lot of work happens on tracking goods, and, on the supplier side, it is about cataloguing. And then we have the data team. It is one of the critical areas that help our customers find the right products.

We have to work with suppliers closely. All aspects, including returns, are predictive in nature and functions like these take place at this centre.

You have a lot of suppliers in China and Vietnam. What are some of the impacts due to the tariff dispute between the United States and China?

• Our business is dependent on multiple different conditions like interest rates and inflation. The business has been interesting and challenging for the past many years, which of course has got us an opportunity to build a strong company. Having said that, so far as tariffs are



concerned, I think everybody in one form or fashion is affected. There is no way that our business will not be.

How is the life of a software developer changing because of AI?

■ The way software is being written, the way it is being tested, the way it is being deployed — all are changing. People who will adjust to it will be doing great. People who do not will lose jobs. It is a pivotal moment for us from a GCC perspective to change the way we do things. We started by first equipping every single person with

senior leaders looking at the life of a developer. We are not just providing tools, which are a tick mark, but fundamentally looking at the measurement by saying what is being done in 20 days can be done in 15 or 10 days.

Is it a challenge for mid-level managers to adapt to new tools? How do

you overcome that?

I advise them to get into the shoes of the developer. I insist you should always write code till late in life. A lot of people stop writing it. I see requests every day from all my management team members to get access to "code generate" because they are writing. They are also doing code reviews. We focus strongly on tech skills before we hire anybody, including at senior management. The senior-most people in this organisation spend a reasonable amount of time writing code.

Do you have any plans to operate in India?

■ No. Apart from the tech centre, we have no business interest here. And the reason is that our opportunity base in North America is high. If you look at the home market, it is worth hundreds of billions of dollars.

ECHDIGEST @ mybs.in/tech

WhatsApp updates 'Status'

WhatsApp is set to elease an update that orings new tools aimed at naking Status posts more dynamic. Users will soon be able to add music tracks as

stickers, create personalised layouts, and convert images into stickers. These feaures will start rolling out shortly and are expected to reach all WhatsApp users over the next few months.

Nothing to discontinue Glyph interface

The Glyph Interface may not appear on Nothing's next flagship device, the

Phone 3. Shortly after announcing a July release date, the company posted on X: "We killed the Glyph Interface." The Glyph lighting system, featured on previous models, provided users with face-down alerts for notifications, visual indicators for countdowns, and more,

TELECOM TOWERS | MONOPOLES | SMART CITY POLES | UTILITY POLES TRANSMISSION LINE TOWERS | SOLAR MODULE MOUNTING STRUCTURE | EPC

EXTRACTS OF AUDITED STANDALONE /CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER /YEAR ENDED 31 MARCH, 2025

(Rs. in Lakhs except EPS)

Particular	Standalone			Consolidated				Notes:	
Particulars	Quarter ended		Year ended		Quarte	Quarter ended		ended	 The above is an with stock exchange.
	31-Mar-25	31-Mar-24	31-Mar-25	31-Mar-24	31-Mar-25	31-Mar-24	31-Mar-25	31-Mar-24	Disclosure Req
Total Income from operation	47,268.78	35,842.29	1,41,762.80	1,20,033.92	48,596.77	36,953.70	1,45,469.82	1,21,190.24	Results are ava
Net Profit/(Loss) for the quarter/year ended (before tax, exceptional/ extraordinary item)	2,781.04	2,022.79	6,920.54	6,938.42	1,150.68	2,290.15	4,856.39	7,202.29	& www.bseindia 2. The above aud reviewed by the
Net Profit/(Loss) for the quarter/year ended before tax (after exceptional/extraordinary item)	2,781.04	2,022.79	6,920.54	6,938.42	494.68	2,290.15	3,960.91	7,202.29	their meetings h Statutory Audito thereon.
Net Profit/(Loss) for the quarter/year ended after tax (after exceptional/extraordinary item)	1,931.09	1,521.97	5,071.00	5,130.67	(523.46)	1,697.36	1,913.08	5,293.33	 These results h Accounting Sta
Total Comprehensive Income for the quarter/ year ended (Net of Tax)	1,908.02	1,521.97	5,049.22	5,132.38	2,272.02	1,699.07	4,709.85	5,295.04	the Companies policies to the ex 4. Figures for the
Equity Share Capital	17,267.70	15,785.26	17,267.70	15,785.26	17,267.70	15,785.26	17,267.70	15,785.26	necessary, to co
Reserves (Excluding Revaluation Reserve)			55,867.26	29,020.88			61,287.60	29,245.31	
Earning per Share (in Rs.)									
Basic	0.11	0.10	0.30	0.33	(0.03)	0.11	0.11	0.34	
Diluted	0.11	0.10	0.30	0.33	(0.03)	0.11	0.11	0.34	Date: 30.05.2025 Place: Noida

- The above is an extract of detailed format of Audited Financial Results filed with stock exchanges under regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Audited Results are available on the stock exchange websites viz. www.nseindia.com
- & www.bseindia.com and on the Company's website www.salasartechno.com. The above audited Standalone/Consolidated Financial Results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meetings held on 30th May 2025. These results have been audited by the Statutory Auditor of the Company who has issued an unqualified opinion thereon.
- These results have been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (Ind AS) prescribed under section 133 o the Companies Act 2013 and other recognized accounting practice and policies to the extent applicable.
- Figures for the previous period/year have been regrouped whereever necessary, to confirm to the current period's classification

For Salasar Techno Engineering Ltd.



Alok Kumar Managing Director DIN: 01474484



SALASAR TECHNO ENGINEERING LIMITED

CIN: L23201UP2001PLC209751

Regd office: Kh. No. 265, 281 to 288, Parsaun-Dasna, Jindal Nagar, Hapur-201015 Tel: (+91) 7017538987; E-mail id: compliance@salasartechno.com, Website: www.salasartechno.com

(Advertising and Claims) Regulations, 2018, the term "100 per cent" is not defined or referenced in any manner under the FSS Act, 2006, or the Rules and Regulations made thereunder. Furthermore, the Sub-regulation 10(7) of the afore-

FSSAI bans use of

potential to mislead consumers.

'100%' on food labels

The Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI)

has issued a strong advisory against the use of the term

"100 per cent" in food labelling, citing concerns over its

asked all food business operators (FBOs) to refrain from

using the term on food labels, packaging, and promo-

tional content, owing to its ambiguity and potential

for misinterpretation within the existing regulatory

In the advisory issued on Thursday, FSSAI highlighted a noticeable surge in the use of the term "100 per cent" across food product labels and promotional platforms. The Authority emphasised that such terminology is not only undefined under current regulations but also misleading and likely to create a false impression among consumers. According to the Food Safety and Standards (FSS)

The apex food regulator, in a statement, said it has

mentioned regulations strictly prohibits any advertisement or claim that undermines other manufacturers or influences consumer perception in a misleading manner.

Flipkart expects 200 mn visitors during EOSS

Ecommerce major Flipkart is expecting over 200 million visitors during its Fashion End of Season Sale (EOSS) beginning May 30. The event will offer choices from more than 70,000 brands and sellers across sectors such as

apparel, beauty, and lifestyle. The Walmart-backed company said the sale will feature an expanded product range and promotional offers aimed at drawing millions of customers from across India. It said the event will be accessible in all regions of service with curated selections covering more than 1,000

style trends. Flipkart has seen a significant uptick in the adoption of premium products. Branded accessories witnessed better Year-on-Year (Y-o-Y) growth. The premium clothing segment has also seen a rise this year. D2C brand collections have expanded three times, with a 60 per cent

growth over last year. "From Gen Z curations on SPOYL to premium selections across apparel, footwear, and accessories, we are making fashion more accessible faster and more affordable for millions across the country," said Kunal Gupta, vice-president, Flipkart Fashion.

Balaxi Pharmaceuticals Limited

Registered Office: Plot No.409, H. No. 8-2-293, Maps Towers, 3rd Floor, Phase-III, Road No. 81, Jubilee Hills, Hyderabad, Telangana, India - 500096.

CIN: L25191TG1942PLC121598 | Phone: +91 40 23555300 | Email: secretarial@balaxi.in | Website: www.balaxipharma.in

								(Rs. in Lakhs, unl	ess specytea)
			Stand	alone			Conso	lidated	
SL No.	Particulars	Quarter ended 31/03/2025	Year ended 31/03/2025	Quarter ended 31/03/2024	Year ended 31/03/2024	Quarter ended 31/03/2025	Year ended 31/03/2025	Quarter ended 31/03/2024	Year ended 31/03/2024
		Audited	Audited	Audited	Audited	Audited	Audited	Audited	Audited
1	Total Income from Operations	964.89	6,098.82	1,590.45	7,019.60	7,626.61	29,256.12	5,983.31	24,129.44
2	Net profit/(loss) for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary items)	(113.75)	528.77	(26.42)	558.32	966.26	2,866.96	1,040.44	4,030.89
3	Net profit/(loss) for the period before tax (after exceptional and/or extraordinary items)	(113.75)	528.77	(26.42)	558.32	966.26	2,866.96	1,149.37	201.55
4	Net profit/(loss) for the period after tax (after exceptional and/or extraordinary items)	(117.85)	360.13	(57.52)	365.04	863.75	2,507.02	1,093.39	(238.68)
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising profit/(loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	(117.85)	360.13	(57.52)	365.04	821.84	2,766.80	1,061.35	(730.57)
6	Paid-up Equity Share Capital [Face value of Rs. 10 each]	1,104.15	1,104.15	1,089.77	1,089.77	1,104.15	1,104.15	1,089.78	1,089.78
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as per the Audited Balance Sheet of the previous year		11,681.12		11,064.91		22,069.48		19,046.56
8	Earnings Per Share (of Rs.10/- each) 1. Basic (amount in Rs.)	(0.21)	0.65	(0.11)	0.71	1.56	4.54	2.08	(0.46
	2. Diluted (amount in Rs.)	(0.21)	0.65	(0.11)	0.71	1.56	4.54	2.08	(0.46

a) The above is an extract of the detailed format of Financial Results for the quarter and year ended March 31, 2025 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Statement of Audited Standalone and Consolidated Financial Results is available on the website of the Stock Exchar www.nseindia.com (NSE) and on the Company's website at www.balaxipharma.in.

b) The above Audited Standalone and Consolidated Financial Results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meetings held on May 30, 2025 respectively. The aid Financial Results are prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind AS) as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013.

Place: Hyderabac Date: May 30, 2025



For and on behalf of the Board of Director. Balaxi Pharmaceuticals Limited Sd/-

Ashish Maheshwari Managing Director DIN: 01575984

CIN: L34100PN2005PLC205813 Registered Office: Plot No. E-2/2, Phase III MIDC Industrial Area, Nanekarvadi CT, Taluka - Khed, Pune, Chakan - 410501, Maharashtra, India.
Tele No.: 02135-637999, Email ID: cs@nibelimited.com , Website: www.nibelimited.com

EXTRACT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS (STANDALONE AND CONSOLIDATED) FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2025

NIBE LIMITED

(Rupees in Lakhs, except for EPS) Sr. No. Standalone Consolidated **Particulars**
 Quarter Ended
 Year Ended

 31-03-2025
 31-12-2024
 31-03-2024
 31-03-2025
 31-03-2024
 Year Ended 31-03-2025 31-03-2024 31-12-2024 31-03-2024 31-03-2025 (Audited) (Audited) (Audited) (Audited) (Audited) (Audited) Total Income from operations 10,608.72 13,887.62 14,938.00 48,146.72 27,899.98 11,258.80 14,868.17 15,216.81 50,731.51 28,183.79 Net Profit / (Loss) for the period 2,940.68 1,095.48 312.45 1.667.87 3,760.98 1,467.37 191.27 1,500.54 3,960.04 2,597.84 (before Tax, Exceptional and/ or Extraordinary ite Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) 1.095.48 312.45 1.667.87 3,760.98 2.940.68 1.467.37 191.27 1.500.54 3.960.04 2.597.8 Net Profit / (Loss) for the period after tax 688.00 282.40 1.218.51 2.696.62 2.205.87 872.90 1.042.79 2.743.89 1.852.86 (after Exceptional and/or Extraordinary items) 193.64 Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] 3.21 0.75 2.49 5.46 1.61 0.46 2.49 4.84 6 Equity Share Capital 1,429.66 1,429.66 1,313.22 1,429.66 1,313.22 1,429.66 1,429.66 1,313,22 1,429.66 1,313.22 Reserves (excluding Revaluation Reserve) as show in the Audited Balance Sheet of the previous year. 21.064.97 21.768.82 14.767.99 Earnings Per Share for continuing and discontinued operations) 1. Basic: 4.81 1.98 9.28 19.42 17.82 6.11 1.35 7.94 19.76 14.97 14.97

The above Audited financial results for quarter and year ended March 31, 2025 have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at their Meeting held on May 29, 2025. The Statutory Auditors of the Company have carried an audit of the Consolidated Financial Results of the Group for the year ended March 31, 2025 and have issued an unmodified report.

The Board of Directors has recommeded a dividend of Rs 1.25 per Equity share (face value of Rs. 10 each) for the year ended March 31, 2025. This is subject to approval of shareholders at Annua

The above is an extract of the detailed format of the Audited (Standalone and Consolidated) financial results for the quarter and year ended on March 31, 2025 filed with the Stock Exchange unde Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full format of the Audited (Standalone and Consolidated) financial results for the quarter and year ended

on March 31, 2025 are available on the Stock Exchange website i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com and Company website at www.nibelimited.com or can be accessed by scanning QR For and on behalf of the Board of Directors

Date : May 29, 2025















फुलवती जैन आधार 333974280814 पत्नी स्व. श्री निरंजन लाल निवासी एफ-6 बुध विहार फेस-1, दिल्ली-110086 पूरे होशो हवास में यह घोषणा करती हैं कि मैने मेरी चल अचल सम्पति से मेर्रे बडे पुत्र मुकेश चन्द जैन को बेदखल कर दियाँ है। उसके किसी भी व्यवहार के लिए मै जिम्मेदार नहीं हूँ। उसका मेरी किसी भी चल अचल सम्पति पर कोई अधिकार नहीं है और न होगा।



हिंदुजा हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड कार्यांतयः ए. के. टावर, दूसरी मंजिल, 56 सुमाब रोढ, देहरादूर सीएलएम - अंशिका राणा मोब सं.-8755

अध्यल सम्पत्ति के भौतिक कड़ना की सार्वजनिक सूचना
प्रति, 1. श्री अभिनय गूना (कर्जवार)
दोनों का पता: मकान सं. 243/3 लाल बाझा पर्ल, आकथर मंगालंग तर-रूउकी, जिला हरिद्वार 247666
प्रलएएन सं. यूटी/यूटीके/बीएवओएन/ए00000138 एवं यूटी/यूटीके/बीएवओएन/ए00000758
चृंकि, जिस्ट्रेक्ट मंजिस्ट्रेट, हरिद्वार, चलराखंड द्वारा दिनांक 03.02.2025 को मारित आयेश के मार्फत मंगर्स विदुज डाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड द्वारा दिनांक 26.05.2025 को मोहल्ला लालबाड़ा मंगलेर पराना मंगलोर, तहसील रूडकी
जिला हरिद्वार में स्थित ज्वस्तर सं. 2465/2 एमआई से संबंधित पूर्व में 30 फीट पश्चिम में 30 जतर में 25 फीट एवं दक्षिण
में 25 फीट परिमाप कुल लेनफल 750 वर्ग फीट या 89,702 वर्ग मीटर परिमाप के मूखंड पर निर्मित एक नकान सं.1010 के रूप में सम्पत्ति पर मौतिक कड़जा कर लिया गया है।
विशेष रूप से कर्जवारों तथा आम गीर पर जनसाधारण को इस सम्पत्ति के साथ कोई भी सीवा नहीं करने के लिए सर्वक
किया जाता है तथा इस सम्पत्ति के संबंध में कोई भी सीवा मैसर्व हिंदुजा हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड के प्रमार का विषय होगा।
दिनांक: 31.05-2025, स्थानः कड़की



U. P. STATE SUGAR CORPORATION LTD. VIPIN KHAND, GOMTI NAGAR, LUCKNOW-226010 Ph. No. 0522-2307826/28 www.upsugcorp.in Email: upstatesugarcorporation@gmail.com

Dated - 30 05 2025 Ref.No.: PUR/SSC/Tender/2025-26/235

Short Term e-Tender Notice

Online e-tenders are invited from manufacturers/Authorized dealers (as per details given in tender documents) for supply of Roller shaft to various Sugar Factories of U. P. State Sugar Corporation Ltd. The e-tender documents with detailed specifications, make, terms and conditions etc., can be downloaded from e-tender portal http://etender.up.nic.in & Sugar Corporation's website: www.upsugcorp.in starting from 03.06.2025.

The Managing Director, Sugar Corporation reserves the right to cancel any or all bids/annul e-bidding process without assigning any reason to & decision of Corporation will be final & binding.

MANAGING DIRECTOR



स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड राउरकेला इस्पात संयंत्र राउरकेला - 769011 (ओडिशा), भारत

सूचना

कृपया ध्यान दें : राउरकेला इस्पात संयंत्र (आर.एस.पी.) के पूर्व कर्मचारी / मृत पूर्व कर्मचारियों के नामांकित व्यक्ति जो कर्मचारी परिवार लाभ योजना (ई.एफ. बी.एस.) में नामांकित हैं।

राउरकेला इस्पात संयंत्र (आर.एस.पी.) के पूर्व कर्मचारी या मृत पूर्व कर्मचारियों के नामांकित व्यक्ति, जो कर्मचारी परिवार लाभ योजना के अंतर्गत नामांकित हैं और जिनकी सेवानिवृत्ति की आनुमानिक तारिख बीत चुकी है, लेकिन उन्होंने अभी तक ई.एफ. बी.एस. योजना के अंतर्गत जमा की गई अपनी भविष्य निधि (पी.एफ.) और ग्रेच्युटी राशि का दावा नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे अपने जानकारी की पुष्टि करें।

ऐसे व्यक्तियों की सूची संपर्क पोर्टल https://sampark.sailrsp.co.in पर उपलब्ध है।

यदि इस सूची में आपका नाम है, तो आपको आगे की सहायता के लिए आर.एस.पी. के ई.आर.एण्ड सी. अनुभाग से संपर्क करने की सलाह दी जाती है।

➤ संपर्क नंबर : 0661-244-8506 (कार्यालय समय के दौरान) जिन्होंने पहले ही दावा कर लिया है , वे कृपया इस सूचना को नज़रंदाज़ करें।

पंजीकृत कार्यालयः इस्पात भवन, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 Corporate Identity Number : L27109DL1973GO1006454, Website: www.sail.co.in

हर किसी की ज़िन्दगी से जुड़ा हुआ है सेल

M/S ACME RESOURCES LIMITED

Extract for Statement of Audited Standalone and Consolidated Financial Statemen of Acme Resources Limited for Quarter and Year ended 31st March 2025 Registered office:- 984, 9th Floor, Aggarwal Cyber Plaza – II, Netaji Subhash Place, Pitampura, New Delhi - 110034 [Regulation 47(1) (b) of the SEBI (LODR) Regulations. 2015

	[Regu	lation 47(1) (b) of the SEBI (LO							
		STANDALON			CONSOLIDATED				
SI.	Particulars	QUARTE	R ENDED	YEAR	YEAR ENDED		R ENDED	YEAR	ENDED
No.		31.03.2025 Audited	31.03.2024 Audited	31.03.2024 Audited	31.03.2024 AUDITED	31.03.2025 Audited	31.03.2024 AUDITED	31.03.2025 AUDITED	31.03.2024 AUDITED
1	Total Revenue from								
	Operations	409.79	144.32	794.62	706.16	491.28	184.18	1,091.54	990.37
2	Net Profit for the								
	period (before Tax,								
	Exceptional and/or								
	Extraordinary Items)	(122.49)	(217.10)	171.89	16.81	(40.43)	(196.81)	451.21	263.59
3	Net Profit for the								
	period before tax								
	(after Exceptional								
	and/or Extraordinary								
	Items)	(122.49)	(217.10)	171.89	16.81	(40.43)	(196.81)	451.21	263.59
4	Net Profit for the	ľ .	ľ .						
	period after tax (after								
	Exceptional and/or								
	Extraordinary items)	(117.71)	(160.55)	145.27	(12.88)	(55.63)	(143.69)	354.54	171.29
5	Total Comprehensive				(((
	Income for the period								
	[Comprising Profit /								
	(Loss) for the period								
	(after tax) and Other								
	Comprehensive								
	Income (after tax)]	(117.71)	(160.55)	145.27	(12.88)	(55.63)	(143.69)	354.54	171.29
6	Equity Share Capital		2,574.40	2.574.40	2,574.40	2,574.40	2.574.40	2,574.40	2,574.40
7	Reserves (excluding			•					
	Revaluation Reserve)								
	as shown in the								
	Audited Balance Sheet								
	of the previous year	١.		4.463.39	4,318.13			10,508.35	10.154.06
8	Net Worth	Ι.	Ι.	7.037.79			١.	13,082.75	
9	Earnings Per Share			.,,	5,502.00			.5,50270	,010
٠	(for continuing and								
	discontinued operations) -		l						
	Basic :	(0.46)	(0.62)	0.56	(0.05)	(0.22)	(0.56)	1.38	0.66
	Diluted:	(0.46)	(0.62)	0.56	٠ ,	(0.22)	(0.56)	1.38	0.68

- 1. The working results for the Quarter Ended March 31, 2025 and Quarter Ended March 31,2024 have been arrived at after considering provisions for Non-Performing and Standard Assets as per Reserve Bank of India guidelines, provision for taxes and other necessary provisions.
- The above results have been reviewed by the audit committee and approved by the Board of Directors in their meeting held on 29/05/2025. The above results pertain to Acme Resources Limited on Standalone and Consolidation basis
- 3. NBFC Business is representing the financing business and sales/purchase of properties & shares are included under 'Property/Share trading'
- The above is an extract of the detailed format of financial results for quarter and year ended on 31st March 2025 filed with Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, as amended. The full format of Standalone and Consolidated financial results for the guarter and year ended March 31,2025 are available on BSE (www.bseindia.com), CSE (www.cse-india.com) and the website of the Company (www.acmeresources.in).

For and on behalf of the Board SD/ **Managing Director**

В FINSERV

बजाज हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड

कार्पोरेट कार्यालय : सेरेब्रम आईटी पार्क, बी-2 बिल्डिंग, 5वां तल, कल्याणी नगर, पुणे, महाराष्ट्र – 411 014, शाखा कार्यालय : यूनिव

and the state of t								
कर्जदार(रों) / गारंटर(रों) का नाम (एलएएन नंबर, शाखा का नाम)	प्रत्याभूत आस्ति का वर्णन (अचल सम्पत्ति)	मांग सूचना तिथि और राशि	कब्जा की तिथि					
शाखा: गाजियाबाद (एलएएन नं. H581HHL1060660 और H581HL71063846) 1. संदीप कुमार (कर्जवार) 2. तनु तनु (सह—कर्जदार)	निग्न वर्णितानुसार गैर-कृषि भूमि सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : पलेट नवर 1 प्रथम तल बिना छत के अधिकार के, परिमाप 60 वर्ग गज, खसरा नवर 55, तिरुपति एन्क्लेव, ग्राम छपरीला, परगना और तहसील दादरी जिला, गीतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश-201009	रु २६२४,०२५/- (रुपये छर्ज	27-05-2025 ोस लाख चौबीस हजार					

पता : मकान नंबर 6/96, ब्लॉक 6, निकट बाल्मीिक मंदिर, खिचड़ी पुर, ईस्ट दिल्ली, दिल्ली–110091

तिथि : 31-05-2025 स्थान : दिल्ली / एनसीआर प्राधिकत अधिकारी बजाज हालसिंग फाइनैंस लिमिटेल

PICICI Home Finance शाखा कार्यालय : आईसीआईसीआई बैंक टॉवर्स, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा(ईस्ट), मुंबई-400051

कॉर्पोरेट कार्यालय : आईसीआईसीआई एचएफसी टॉवर, अंधेरी कुर्ला रोड, जे.बी. नगर, अंधेरी (ई), मुंबई —400 059

जबाक अघोहरताक्षरी आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के प्राधिकृत अघिकारी होने के नाते, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अघिनियम, 2002 और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमों, 2002 के नियम 3 के सहपठित धारा 13(12) के तहत प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न वर्णित उधारकर्ताओं को मांग जारी कर, उक्त सूचना प्राप्त होने के वित्तांक से 80 दिनों के भीतर सूचना में उल्लेखित राशि चुकाने के लिए कहा गया। उधारकर्ता राशि चुकाने में विफल रहा है, इसलिए सामान्य रूप से उधारकर्ता और जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में नीचे वर्णित संपत्ति का प्रतीकात्मक कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से उधारकर्ता और आम तौर पर जनता को एतद् द्वारा जाता है कि संपत्ति से लेन—देन न करें और संपत्ति के साथ कोई भी व्यवहार आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के प्रमार के अधीन

उधारकर्ता का ध्यान उपलब्ध समय के संबंध में, प्रत्याभूत परिसंपत्ति को छुड़ाने के लिए, अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों पर आकर्षित

	क्र. सं.	उधारकर्ता/ सह–उधारकर्ता का नाम/ऋण खाता संख्या	संपत्ति का विवरण/कब्जे की दिनांक	माग सूचना में दिनांक/ मांग सूचना में राशि (रू.)	शाखा का नाम
1			संपत्ति सं. 387, खसरा सं. 1197 1212 एम वार्ड सं. 10, कैलाशपुरी खेकरा	16.03.2024	मेरठ
ıΙ			॥ ० बागपत उत्तर प्रदेश—250609 मापक क्षेत्र 96.92 वर्ग मीटर याँ 1 15.92	₹0.	
Н	1.	सुधा	वर्ग गज ,उत्तर: 18 फुट चौड़ रास्ता (संदर्भ : LHMRT00001473718)	73,508.96/-	
П			सीमांकन: उत्तर: 20 फुटू चौड़ा रास्ता, दर्णिण् : भूपू सिंह का मकान, पूर्व : संजू		
П		LHMRT00001473718	का मकान, पश्चिम : भूँप सिंह का मकान/ कब्जे की दिनांक :28.05.2025		
		अर्जुन सैनी	संपत्ति सं. 387, खसरा सं. 1197 1212 एम वार्ड सं. 10, कैलाशपूरी खेकरा	16.03.2024	मेरठ
П		(उघारकर्ता),	॥ ० बागपत उत्तर प्रदेश—250609 मापक क्षेत्र 96.92 वर्ग मीटर याँ 115.92		
П	2.	े सुधा	वर्ग गज ,उत्तर: 18 फुट चौड़ रास्ता (संदर्भ : LHMRT00001473718)	16,89,477/-	
П			सीमांकन: उत्तूर: 20 फुटू चौड़ा रास्ता, दर्णिण् : भूपू सिंह का मकान, पूर्व : संजू		
		LHMRT00001473639	का मकान, पश्चिम : भूँप सिंह का मकान/ कब्जे की दिनांक :28.05.2025		

उपर्युक्त उधारकर्ता(ओं) गारंटर(रों) को एतद् द्वारा राशि चुकाने के लिए 30 दिन की सूचना दि जाती है, अन्यथा बंधक संपत्तियों को प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमों, 2002 के नियम 8 और 9 के तहत प्रावधानों के अनुसार, इस सूचना के प्रकाशन की दिनांक से 30 दिनों की समाप्ति पर बेचा जाएगा। दिनांक : 31 मई,2025 प्राधिकृत अधिकारी

कार्यालय वसूली अधिकारी- द्वितीय ऋण वसूली अधिकरण, प्रथम तेल, सुधमरमा-।।, किसान भवन के सामने लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टॉक रोड, जयपुर (राजस्थान) 3002 (क्षेत्राधिकार राजस्थान राज्य) 23/05/25

<u>फार्म संख्या 13</u> (आयकर अधिनियम 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 38, 52(2) के अन्तर्गत) वसूली प्रमाण पत्र संख्याः 780/2020

ई-ऑक्शन :04.07.202

प्रकरण का उनुवान: यूको बैंक बनाम मुकेश कुमार मालू

विक्रय की उद्घोषणा

पह कि माननीय पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण, व्ययुक्त के हार एक क्सूनिय पता 'उद्भुवा पता' अध्यक्त के इस पता के स्वाप के इस एक स्वाप के अध्यक्त के इस एक स्वाप के इस एक स्वाप के अध्यक्त किया ने अपने के अध्यक्त के इस संक्या 1062/2019 में दिनांक 29.08.2020 को कि सूल अधिकरता के इस संक्या अपने अपने के अध्यक्त के अधिकरता के इस संक्या अपने के अध्यक्त के अधिकरता के इस संक्या के अध्यक्त के अधिकरता के इस संक्या के अध्यक्त के इस संक्या के अध्यक्त के अध्यक्त के अध्यक्त किया जाते हैं अधिकार के अध्यक्त कर के अध्यक्त अध्यक्त अध्यक्त के अध्यक्ति के सम्पत्त पर विकास कर की आध्या विवास के अध्यक्त अध्

इच्छुक बालादाताओं को ऊपर वाणत वब साइट पर पजाकूत कराना तथा पहचान चन्द्र व पासवड प्राप्त करना आवश्यक हागा जा कि सवा प्रदाता हाश उपलब्ध कराया जायेगा। जो बोली तथाये जाने के दिए अनिवारों है। बोलीदाता को आरक्षित मूल्य की 10 प्रतिशत राशि वसूली अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण, जयपुर के पक्ष में डिमाण्ड ड्राफ्ट के जरिये जमा करवायी जा सकेगी अथवा Indian Overseas Bank Capital Height Street, CPI 231, Shop No. E-I.GF-5-10, Apparel Park, RIICO Industrial Area, Main Mahel Road, Jagatpura, Jaipur. IFSC No. 10BA0003280 में संघारित खाता संख्या 382002000000001 में जमा करवाया जा सकेगा। अमानत राशि जमा कराये जाने का प्रमाण, पेनकार्ड की सत्यापित प्रतिलिपी, पते का प्रमाण तथा प्राधिकार पत्र (पति वे किसी अन्य व्यक्ति अथवा संस्था की ओर से बोली में भाग ले रहे हैं)

प्रथम कार्यालय दिवस को ऐसा किया जा सकेगा। उत्तर चींश Indian Overseas Bank Capital Height Street, CPI 231, Shop No. E-LGF Apparel Park, RIICO Industrial Area, Main Mahel Road, Jagatpura, Jaipur. राजस्थान में स्थित खाता सख्या 382002000000001 में जम जादेगी अथवा जरिये डी.डी. (वसूली अधिकारी ऋण अधिकरण जयपुर) भी अधिकरण में जमा कराई जायेगी। उक्त के मीतर मुगतान में व्यक्तिक्रम किये ज

ावें तो विक्रय उस स्थिति में क्रेता के उक्त सम्पत्ति या राशि के किसी भी माग के विषय में अधिकार जब्त हो जायेगे। सफल बोलीदाता को प्रथम 1000/—रूपये पर 2 s

जरा स्थात में अनता के उनते परनापात था राश के किसो मां ने गां के विषय में आबकार जन है। आयम। संस्कृत बावादाता का प्रथम 1000/ — क्षेत्रय भर १२ रू एवं उसके मश्चात् श्रेष राशि पर 1 प्रतिवाद की दर से पोजण्डेज फीस का गुगतान जिए डी.डी. (रिकेट्ट्रम ऋण बसूनी अधिकरण जयपुर के मांक करना होगे (11) प्रमाणपत्रचारी बैंक के द्वारा इच्छुक बोलीदाता का दिनांक नियत तिथि पर सम्पतित के निरीक्षण की अनुमति दी जावगी जिसके लिए इच्छुक बैंक के अधिकारी सिंह पद—मुख्य प्रबंधक यूको बैंक, जीहरी बाजार ब्रांच, जयपुर से मोंबाईल संख्या 8650349868 पर सम्पत्के कर सकते हैं। (12) यदि इच्छुक बोलीदाता इन्टरनेट के जरिये बोली न लगा सकते हैं तो ये ने अब्द अधिकारी ऐसाप्रदाता के माध्यम से नीलामी में भाग ले सकते हैं। (13) प्रस्तावित बोलीदाता C1 India Pvt. Ltd. कार्यालय 3rd Floor, Plot No. 88, Sector-44, Gurgaon, 122003 Haryana, India, Contact No. 8havik Pa

अनानत सारा अना कराय जान एवं प्रजायन को असित किए गए हैं, अधिकरण में जमा कराने हों हों।
अनानताईन नीलामी सेवाप्रदाता को प्रोसित किए गए हैं, अधिकरण में जमा कराने होंगे।
आनलाईन नीलामी सेवाप्रदाता C1 India Pvi. Ltd. के द्वारा दिनांक 04.07.2025 को प्रातः 11 बजे से सायं 3 बजे तक सम्पादित की जावेगी। दोपहर 03 ब
05 मिनिट तक यदि कोई बोली नहीं बढाता है, तो स्वीकार कर ली जाएगी। किंतु यदि समय 3.05 से पूर्व कोई बोली बढाई जाती है, तो पुनः नीलामी स मिनट बढा दिया जायेगा। (16) असफल बोलीदाताओं द्वारा घरोहर राशि का मुगतान यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सीतापुरा के द्वारा अधिकरण से आदेश प्राप्त

	उपरात किया जायगा । सम्पात्त का वि	dakai							
लॉट की एंख्या	सम्पत्ति के मालिक एवं अन्य सहमालिक का नाम सहित बेची जाने वाली सम्पत्ति का विवरण जहां सम्बन्धित व्यक्तिक्रमी जो किसी अन्य व्यक्ति से सह-मालिक है	सम्पत्तिया उसके किसी भाग पर राजस्व जिसका मूल्यांकन किया गया है	किसी भी प्रकार के भारका विवरण जिसके लिए सम्पत्ति उत्तरदायी है	विवाद अगर कोई है जो कि सम् संबंध में आगे आया है एवं अन्य विशिष्टियों जो कि इसके मृह प्रकृति प्रभाव रखता है					
1	2	3	4	5					
	संपत्ति के मालिक:- मुकेश कुमार माल् पुत्र श्री बाबूलाल मालू सम्पत्ति का विवरणा Residential Flat No. B-701, situated at Guru Shikhar Apartment, Tonk Road, Sanganer, Jaipur, Rajasthan. admeasuring: 1154 aq.ft.	जानकारी नहीं	जानकारी नहीं	जानकारी नहीं					
<u> </u>	पोल) में स्ट्राप्टर एवं मील हारा दिवांक 23/05/2025 को जारी। वसली अधिकारी—दितीय ऋण वसली अधिकरण								

पंजीकृत कार्यालयः 98ए, दूसरा तल, नंबरदार एस्टेट, तैमूर नगर, नई दिल्ली-110065 फोन नं.- 011-41064256, फैक्स नं.- 011-26322664, ई-मेल: cs@oswaloverseasltd.com, वेबसाइट: www.oswaloverseasltd.co

	31.03.2025 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए लेखापरीक्षित एकल वित्तीय परिणामीं का सार									
						(रु. व	1)			
क्र. सं.	विवरण	31.03.2025 को समाप्त तिमाही	31.03.2024 को समाप्त तिमाही	31.12.2024 को समाप्त तिमाही	31.03.2025 को समाप्त वर्ष	31.0 को	4 T			
		लेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित	लेखा	त			
1.	प्रचालनों से कुल आय (शुद्ध)	2870.65	3778.95	1423.15	6762.63	1520				
2.	कर पश्चात साधारण गतिविधियों से शुद्ध लाभ / (हानि) (असाधारण मदों के पूर्व)	-210.09	112.35	-462.69	-1239.20	-5 ⁻				
3.	कर पश्चात अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (असाधारण मदों के बाद)	-209.92	342.45	-462.10	-1238.43	-54				
4.	अन्य समग्र आय	0.49	0.30	2.05	2.19					
5.	शुद्ध लाभ ∕ हानि	-209.43	342.74	-460.04	-1236.24	-54				
6.	इक्विटी शेयर पूंजी	646.11	646.11	646.11	646.11	64				
7.	रु. 5/— प्रत्येक के इक्विटी शेयरों की संख्या	129.22	129.22	129.22	129.22	12				
8.	आरक्षित निधि (तुलनपत्र में दर्शाए अनुसार पुनर्मूल्यांकन आरक्षित को छोड़कर)	_	•	•	-3299.57	-206				
9.	अर्जन प्रति शेयर (असाधारण मदों के पूर्व) (रु. 10/– प्रत्येक का अंकित मूल्य)									
	बेसिक:	-1.62	2.65	-3.56	-9.57					
	डायल्यूटेडः	-1.62	2.65	-3.56	-9.57					

वेबसाइट (www oswaloverseastid com) पर उपलब्ध है। उपर्युक्त परिणामों की लेखापरीक्षण समिति द्वारा समीक्षा की गई है और निदेशक मंडल द्वारा 30 मई, 2025 को आयोजित उनकी बैठकों में अनुमोदिः

चीनी उद्योग एक मौसमी उद्योग है जिसमें पेराई सामान्यतः नवंबर और अप्रैल के बीच की अवधि में होती है और बिक्री वर्ष भर चलती है। कंपनी व

जैसा कि कराधान कानून (संशोधन) अध्यादेश 2019 द्वारा घोषित किया गया है और कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 2019 के रूप में प्रत ने विस्तर 2019 को अधिनियमित दिनांक 1 अप्रैल, 2019 से प्रमावी आयंकर अधिनियम 1961 की धारा 115बीएए के प्रावधानों के अनुसार, घरेलू के पास उक्त खंड में निर्दिष्ट कुछ छूट∕कटौती ('नई कर व्यवस्था') को छोड़ते हुए रियायती दर पर आयंकर का भुगतान करने का विकल्प हैं 115बीएएं के प्रावधानों के अनसार, घरेल नई कर व्यवस्था के संभावित प्रभाव के आकलन के आधार पर, कंपनी ने मौजूदा कर व्यवस्था को तब तक जारी रखने का फैसला किया है जब त कुछ कटौती उपलब्ध न हो जाएं और संचित न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) क्रेडिट काफी हद तक समाप्त न हो जाए और उसके बाद ऊप

ओसवाल ओवरसीज लिमिटेड के



परमजीत (प्रबंध निदे डीआईएनः 0031

एएमडी इंडस्ट्रीज लिमिटेड 18, पूसा रोड, पहली मंजिल, करोल बाग, नई दिल्ली — 110005

CIN:L28122DL1983PLC017141 वेबसाइट: www.amdindustries.com, ईमेल: Investor@amdindustries.com 31 मार्च, 2025 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए लेखा परीक्षित वित्तीय परिणामों का सार

(प्रति शेयर डैटा को छोड़कर रुपये लाखों में) समाप्त तिमाही समाप्त वर्ष विवरण 31 मार्च, 2024 31 31 मार्च, 2025 31 दिस. 2024 मार्च, 2025 31 मार्च, 2024 (अकेक्षित) (अंकेक्षित) (अनंकेक्षित) (अकेंद्रित) (अंकेक्षित) 1. संचालनों से कुल आय 8,218.57 4,490.90 7,492.09 27,646.47 27,774.05 अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर तथा असाधारण 10.68 (239.78) 28.85 127.81 (199.75) मदों से पूर्व) कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाम/(हानि) (असाधार (239.78) (199.75) 10.68 28.85 127.81 मदों के बाद) कर तथा असाधारण मदों के बाद की अवधि के लिए (169.15) 4.28 8.92 (167.37) 99.91 शुद्ध लाभ/(हानि) अवधि के लिए कुल व्यापक आय (अवधि के लिए लाभ) 2.60 (168.85) 9.07 101.31 (168.30) हानि (कर के बाद) और अन्य व्यापक आय (कर के बाद इक्विटी शेयर पूंजी 1,916.67 1,916.67 1,916.67 1,916.67 1,916.67 आय प्रति शेयर (रु. 10/- प्रति का) (क) मूल (रु.): 0.02 (88.0)0.05 0.52 (0.87)(ख) तरल (रु.): 0.02 (0.88)0.52 (0.87)

. उपर्यक्त लेखा परीक्षित वित्तीय परिणामों की लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की गई और 29 मई 2025 को आयोजित बैठक में निदेशक मंडल द्वार अनुमोदित किया गया। वैधानिक लेखापरीक्षकों की लेखापरीक्षा रिपोर्ट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नैशनल स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल की जा रही है।. 2. उपरोक्त 31 मार्च, 2025 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का उद्धरण है, जिसे सेबी (सूचीकर)

ाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों के पास दायर किया गया है। 31 मार्च, 2025 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का पूरा प्रारूप वैधानिक लेखा परीक्षकों की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के साथ हमारी वेबसाइट www.amdindustries.com के निवेशक अनुमाग के तहत और www.bseindia.com और www.nseindia.com के कॉर्पोरेट अनुमाग में वित्तीर परिणामों के तहत उपलब्ध है। नोर्ज के आदेश से

एएमडी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए हस्ता./-प्रबंध निदेशक DIN: 00238784

स्थानः नई दिल्ली

तिथिः 29.05.2025

द्वितीय तल, जीएमटीटी बिल्डिंग डी-7, सेक्टर 3, नोएडा (उ.प्र.) 20130⁻

UJJIVAN SMALL FINANCE BANK कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु) [नियम 8(1)]

जबकि. अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभतिकरण एवं पनर्निर्माण तथा प्रतिभति हित प्रवर्तन अधिनयम. 2002 के तहत उज्जीवन स्माल फाइनेंर बैंक लिमिटेड का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में कर्जदार(रों)/जमानती(यों) से सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर नीचे उल्लिखित राशि का पुनर्भुगतान करने को

कर्जदार/सह–कर्जदार/बंधककर्ता के राशि के पुनर्भुगतान में असफल होने के कारण, एतद्वारा कर्जदार/सह–कर्जदार/बंधककर्ता को तथा जनसामा को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति पर प्रत्येक खाते के सम्मुख उल्लिखित तिथि पर <mark>सांकेतिक कब्जा</mark> कर लिया है। प्रतिभृत आस्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय-सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के पावधानों की ओर आमन्त्रित किया जाता है।

विशेष रूप से कर्जदार/सह-कर्जदार/बंधककर्ता को तथा जनसामान्य को एतद्वारा सम्पत्ति के साथ कोई संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ कोई संव्यवहार यहां नीचे प्रत्येक खाते के सम्मुख वर्णित राशियों तथा ब्याज एवं अन्य प्रभारों/व्ययों के लिए <mark>उज्जीवन स्माल</mark> फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्रभार के अध्यधीन होगा।

कर्जदार/सह-कर्जदार/बंधककर्ता का नाम	अचल सम्पति का विवरण	मांग सूचना की तिथि	कब्जा करने की तिथि	मांग सूचना के अनुसार राशि
	खसरा नंबर 1304, 1306 में से प्लॉट नंबर		27.05.2025	₹. 6,97,198/-
नबर 1304, 1306, प्रम नगर एक्सटशन, ग्राम	74 का समस्त भाग, क्षेत्रफल 45 वर्ग गज कॉलोनी में स्थित, गांव बेहटा हाजीपुर, परगन प्रदेश में स्थित। जिसकी सीमा इस प्रकार है	॥ लोनी, तहसील और वि	जेला गाजियाबाद, उत्तर	तक तथा उस पर
उत्तर प्रदेश – 201102 (2) सतीश कुमार उर्फ सतीश पुत्र मोहन लाल, प्लॉट नंबर 74, खसरा नंबर 1304,1306, प्रेम नगर	मालिक; उत्तरः प्लॉट अन्य मालिक; दक्षिणः प यानी आप में से नंबर 1 की है।			

रक्सटेंशन, ग्राम बेहटा, हाजीपुर लोनी देहात, <mark>गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश – 201102; इसके अलावा:– सी– 67, गली नंबर–1, प्रेम नगर, मंडोली, मंडोली सबोली</mark> उत्तर पूर्वी दिल्ली -110093, (3) कांता पत्नी सतीश कुमार उर्फ सतीश, प्लॉट नंबर 74, खसरा नंबर 1304,1306, प्रेम नगर एक्सटेंशन, गांव बेहटा, हाजीपुर लोनें देहात, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश - 201102, अलस्रोटः- 155, प्रेम नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश - 201102, इसके अलावाः-सी-67, गली नंबर-1, प्रेम नगर मंडोली, मंडोली सबोली, उत्तर पूर्वी दिल्ली -110093, ऋण खाता क्रमांक 2347210170000023 में।

(i) आवासीय प्लॉट का समस्त भाग, पूर्व के 04.01.2025 कर्जदार:- (1) मैसर्स नासिर टेक्सटाइल्स. ब्रसरा नंबर 3742, 3743, 3746, आशिया खसरा नंबर 3742,3743, और 3746 मिंजुमला की भूमि से संबंधित, माप 168.51 वर्ग मीटर कॉलोनी, मेरट, उत्तर प्रदेश - 250002, साथ या 201.53 वर्ग गज, आशियाना कॉलोनी, मेरट शहर, तहसील और जिला मेरट, उत्तर प्रदेश गांव जहांगीरपुर, मोदीनगर में स्थित है, जो इस प्रकार सीमाबद्ध है- सीमाएं:- पूर्वः दूसरों का प्लॉट; पश्चिमः शकील गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-245304, इसवे अहमद और करीमुद्दीन का प्लॉट; उत्तरः मोहम्मद जाहिद पुत्र अब्दुल सलाम का प्लॉट; दक्षिणः रास्ता। संपत्ति सुहेर अलावा:- 12सी. आशियाना कलौनी, मेरट. उत्तर प्रदेश - 250001, इसके अलावाः मकान नंबर 1591/1, आशियाना कॉलोनी, हापड रोड. मेरट. उत्तर प्रदेश - 250002। (2) सुहेल अहमद पुत्र नासिर अली, मकान

अहमद पुत्र नासिर अली यानी आप दोनों के बीच नंबर 2 की है। (ii) आवासीय प्लॉट का समस्त भाग, पूर्व का खसरा नंबर 3742, 3743, और 3746 मिंजुमला की भूमि सम्बन्धित, माप 170.58 वर्ग मीटर या 204 वर्ग गज, आशियाना कॉलोनी, मेरट शहर, तहसील और जिला मेरट उत्तर प्रदेश में स्थित है, जिसकी सीमा इस प्रकार है – सीमाः– पूर्वः नासिर अली और करीमुद्दीन का प्लॉट; पश्चिम

जावेद पुत्र ताहिर का प्लॉट; उत्तरः यूनुस पुत्र असगर का प्लॉट; दक्षिण: रास्ता। संपत्ति शकील अहमद पुत्र करिमुद्दीन 1591/1, आशियाना कॉलोनी, हापुड उर्फ करीमुद्दीन, यानी आपके बीच नंबर 3 की है। रोड. मेरट. उत्तर प्रदेश -250002 (3) शकील अहमद पुत्र करीमुद्दीन उर्फ करीमुद्दीन, मकान नंबर 1592, आशियाना

कॉलोनी, हापुड रोड, मेरट, उत्तर प्रदेश – 250002 (4) रिहाना बेगम पत्नी शकील अहमद, मकान नंबर 1592, आशियाना कॉलोनी, हापुड़ रोड, मेरट, उत्तर प्रदेश - 250002: ऋण खाता क्रमांक 2220230040000003 में।

निथि · ३०.०५.२०२५ स्थान : गाजियाबाद एवं मेरठ

अधिकत प्राधिकारी

₹. 18.50.856/

तिथि 29.12.2024

तक तथा उस पर

ब्याज

30.05.2025



UN: L2813UHK1930FLC001333 पंजी. कार्यालय : प्लॉट नंबर 24, 25, 26 आईएमटी मानेसर, सेक्टर-7, गुरूब्राम-122050, हरियाणा कार्पो. कार्यालय : मिलेनियम प्लाजा, टावर-बी, सुशान्त लोक-।, सेक्टर-27, गुरूब्राम -122002, हरियाणा फोन : + 91(124) 4715100 Fax: + 91(124) 2806085 वैबसाइट : www.thehitechgears.com, ई-मेल : secretarial@thehitechgears.com

मार्च 31, 2025 को समाप्त तिमाही और वर्ष हेतु अंकेक्षित समेकित वित्तीय परिणामों का विवरण (क मिलियन में सिवाय पति शेयर देटा)

		(ल. निलयन न, स्त्याय प्राप्त संबर कटा)					
큙.	विवरण	तिमाही	तिमाही	वर्ष	वर्ष		
सं.	1444.1	समाप्त	समाप्त	समाप्त	समाप्त		
ll		31/03/2025	31/03/2024		31/03/2024		
		(अंकेक्षित)	(अंकेक्षित)	(अंकेक्षित)	(अंकेक्षित)		
1.	परिचालन से कुल आय	2,191.79	2,902.42	9,386.81	11,168.35		
2.	अवधि हेतु शुद्ध लाम/(हानि) (कर, अपवाद तथा/अथवा असाधारण मदों से पहले)	172.45	212.39	627.66	609.25		
3.	अवधि हेतु शुद्ध लाम/(हानि), कर से पहले (अपवाद तथा/अथवा असाधारण मदों के बाद)	172.45	211.88	627.66	1,379.31		
4.	अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि), कर पश्चात (अपवाद तथा/ अथवा असाधारण मदों के बाद)	97.16	178.26	403.63	1,142.53		
5.	अविध हेतु कुल समावेशी आय [जिसमें अविध हेतु शुद्ध लाम/ (हानि) (कर पश्चात) तथा अन्य समावेशी आय (कर पश्चात) शामिल है)]	14.10	146.01	260.77	1,160.49		
6.	इक्विटी शेयर पूंजी	187.93	187.78	187.93	187.78		
7.	संचेय/अन्य इक्विटी, जैसाकि पिछले वर्ष के लेखापरीक्षित तुलनपत्र में दर्शाया गया है			4,647.82	4,473.75		
8.	प्रति शेयर अर्जन (रू. 10/— प्रत्येक का) (जारी और बंद प्रचालनों हेतु) — (तिमाही हेतु वार्षिककृत नहीं)						
	(क) मूल : (ख) तनुकृत :	5.17 5.17	9.49 9.48	21.49 21.46	60.86 60.73		

उपरोक्त अंकिक्षित समेकित वित्तीय पिरणाम अंकेक्षण समिति द्वारा मई 29, 2025 को सम्पन्न उनकी बैठक में पुनरीक्षित किए गए हैं और उसके उपरान्त निदेशक मंडल द्वारा मई 29, 2025 को सम्पन्न उनकी बैठक में अनुमोदित किए गए हैं।

2) निदेशक मंडल ने रू. 10 /— (रूपये दस मात्र) के प्रत्येक इक्विटी शेयर पर रू. 5 /— (रूपये पांच मात्र) अर्थात कम्पनी की चुकता

3) कुम्पनी के निदेशक मुंडल की नामांकन और पारिश्रमिक समिति ने इसके प्रस्ताव दिनांकित फरवरी 12, 2025 के माध्यम से, ंदि हाई—टेक गियर्स लिमिटेड स्टॉक इन्सेंटिव प्लान, 2021 के अनुसरण में कम्पनी के ग्राह्म कर्मचारियों (सहायक कंपनीयों सहित) को रू. 10 प्रत्येक के 15,031 इक्विटी शेयर्स का आबंटन अनुमोदित किया है। अतएव, कम्पनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी रू. 10 प्रत्येक के 1,87,78,186 इक्विटी शेयर्स के रूप में 18,77,81,860 / — से बढ़कर रू. 10 प्रत्येक के 1,87,93,217 इक्विटी शेयर्स के रूप

में 18,79,32,170 / - हो गई है। उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन दायित्व एवं अन्य प्रकटीकरण अपेक्षाए) विनियमावली, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेन्जेज में प्रस्तुत किए गए मार्च 31, 2025 को समाप्त तिमाही और वर्ष हेतु समेकित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का

प्वाइट नंबर 5 पर वर्णित अन्य समावेशी आय में पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता की शेयर मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर ऐल्टिग्रीन प्रोपल्शन लैब्स प्राइवेट लिमिटेड के इक्विटी शेयर्स में निवेश के उचित मूल्यांकन में हानिकरण के कारण हुई रू. 116.20 मिलियन की हानि ममिलित है।

क्षेबी (सूचीयन दायित्व एवं अन्य प्रकटीकरण अपेक्षाए) विनियमावली, 2015 के विनियम 47(1)(ख) के अनुसरण में कम्पनी की प्रमुख
पृथवकृत अंकेक्षित वित्तीय जानकारी के संबंध में अतिरिक्त जानकारी नीचे दी गई है:

	_		(% 1:11614:1-1)			
ı	विवरण	तिमाही	तिमाही	वर्ष	वर्ष	
1		समाप्त	समाप्त	समाप्त	समाप्त	
ı		31/03/2025	31/03/2024	31/03/2025	31/03/2024	
ı		(अंकेक्षित)	(अंकेक्षित)	(अंकेक्षित)	(अंकेक्षित)	
ı	परिचालन से आय और अन्य आय	1,642.79	2,067.62	6,696.12	7,892.93	
ı	कर पूर्व लाभ	184.57	196.47	635.69	647.26	
1	कर पश्चात लाभ	133,61	162.18	473.78	492.69	

7) मार्च 31, 2025 को समाप्त तिमाही और वर्ष हेतु वित्तीय परिणामों का पूर्ण विवरण स्टॉक एक्सचेन्जेज की वेबसाइट् (www.nseindia.com एवं www.bseindia.com) तथा कम्पनी की वेबसाइट (www.thehitechgears.com) पर उपलब्ध है। नीरे दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करके इसे एक्सेस किया जा सकता है। कते एवं हिते निदेशक मंडल



स्थान : नई दिल्ली विधि : मई 29, 2025 दि हाई-टेक गियर्स लिमिटेड हस्ता. दीप कपूरिया कार्यकारी अध्यक्ष (DIN: 00006185)

Date: 29/05/2025

कब्जा सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (4), वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (4), प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावती 2002 के नियम 8(1), (पिरिशिष्ट—IV) के तहत प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावती 2002 के नियम 8(1), (पिरिशिष्ट—IV) के तहत प्रवर्त आधिन्य का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिकारी के रूप में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावती 2002 के नियम 3 के साथ पिटत धारा 13 (2) के तहत प्रवर्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कर्जवार(श्रो/) सह कर्जवार(श्रो/) नार कर्जवार(श्रो/) सह कर्जवार(श्रो/) नार कर्जवार(श्रो/) सह कर्जवार(श्रो/) नार कर्जवार(श्रो/) सह कर्जवार(श्रो/) सह कर्जवार(श्रो/) साथ अध्मक्त सह है। प्रतद्वारा कर्जवार(श्रो/) सह कर्जवार(श्रो/) और जनसाधारण को सुचना दो जाती है कि अधाहस्ताक्षरी ने मेससे बजाज हाउसिंग फाइनैस लिसिटेड की ओर से उक्त नियमावती के नियम 8(1) के साथ पिटत उक्त क्षित्रिय को धार 13 (4) के तहत उसको प्रवर्त्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा प्राप्त कर तिया है। कर्जवार(श्रो/) सह कर्जवार(श्रो/) गारवर(श्रो) को विशेष कप से तथा जनसाधारण को सामान्य कर्म से इस संपत्ति के सब्ध में सव्यवहार कर्जवारों पर बीएचएफएल की इसमें वर्णित राशि(यो) तथा उस पर भावी ब्याज के प्रथम प्रमार के अधीन होगा।

भौतिक कब्जा सूचना

शाखा कार्यालय : 307/1, प्रथम तल, बिश्नोई टॉवर, मंगल पांड नगर, अपेक्स टॉवर के सामने, मेरठ—250004

ı	1-15-4	AL ALLE				
I	क्र. सं.	उधारकर्ता/ सह—उधारकर्ता का नाम/ऋण खाता संख्या	संपत्ति का विवरण/कब्जे की दिनांक	मांग सूचना में दिनांक/ मांग सूचना में राशि (रू.)	शाखा का नाम	
	1.	(उधारकर्ता), सुधा (सह–उधारकर्ता)	संपत्ति सं. 387, खसरा सं. 1197 1212 एम वार्ड सं. 10, कैलाशपुरी खेकरा ॥ 0 बागपत उत्तर प्रदेश—250609 मापक क्षेत्र 96.92 वर्ग मीटर या 115.92 वर्ग गज , उत्तर: 18 फुट चौड़ रास्ता (संदर्भ: LIMRT00001473718) सीमांकन: उत्तर: 20 फुट चौड़ा रास्ता, दणिण: मुप सिंह का मकान, पूर्व: संजू का मकान, पश्चिम: भूप सिंह का मकान/ कब्जे की दिनांक:28.05.2025	73,508.96/-	मेरठ	
	2.	(उधारकर्ता), सुधा (सह—उधारकर्ता)	संपत्ति सं. 387, खसरा सं. 1197 1212 एम वार्ड सं. 10, कैलाशपुरी खेकरा ॥ 0 बागपत उत्तर प्रदेश—250609 मापक क्षेत्र 96.92 वर्ग मीटर या 115.92 वर्ग गज ,उत्तर: 18 फुट चौड़ रास्ता (संदर्भ : LHMRT00001473718) सीमांकन: उत्तर: 20 फुट चौड़ा रास्ता, दणिण : भूप सिंह का मकान, पूर्व : संजू का मकान, पश्चिम : भूप सिंह का मकान/ कब्जे की दिनांक :28.06.2025	₹6.	मेरत	

आईसीआईसीआई होम फाइनेंस केंपनी लिमिटेड स्थान : बागपत

नोटिस न्याबालय सूचना पट्ट (बैंक द्वारा) :23.05.2025

निरीक्षण की तिथि : 26.06.2025 तिश एवं रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि : 01.07.2025

नोटिस मौके पर (बैंक द्वारा) : 30.05.2025

रिपोर्ट : 10.07.2025

िक्रिक्य उपरोक्त प्रतिवादि की सम्पत्ति जिसकी विवरण नीचे अनुसूचि में दियां गया है, का किया जावेगा एवं उबत सम्मत्त पर दावित्व एव दाव जा आधानाश्चत ाकय गय ह, व प्रत्यक लाट क मने असुसूचित में विविद्धित है। मति का विक्रव ''जहाँ हैं बेली स्थित में है'' के आधार पर किया जावेगा। सम्पत्ति का विक्रव अनुसूची में दिये गये लॉट के अनुसार किया जावेगा। यदि सम्पत्ति के कियी एक भाग के विक्रव से हुली राशि सन्तुष्ट हो जाती है तो शेष सम्मत्ति के विषय में जिक्रव तुरत रोक दिया जावेगा। यदि किसी भी लॉट का विक्रव प्रतम्भ करने से पूर्व उक्त प्रमाण पत्र में वर्षित करावा ज्याव जाता है। इक्तव की लागत परिता विक्रव मानोदित करने वाले अने अस्ता कर दी जाती है या उसकी सन्तुष्टि के लिए यह प्रमाण प्रस्तुत विकास जो समाण पत्र की राशि ज्याव जावेगी केया हुल होते जाता के अदा कर दी गई है तो विक्रव रोक दिया जावेगा। क्रव होतु जमाशाहण को स्थर अथवा अधिकृत प्रतिनिध के जातेथी बोली लागे हेतु आमंत्रित किया जाता है। किसी भी अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो इस विक्रव के सम्बन्ध में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष से वे अपना करेज निर्वत्व कर राह है के हुद्धा विक्री में क्यों है सम्मत्ति के विक्रव में बोले में अथवा सम्मत्ति के अर्जन अपनास में माग नहीं दिवा जावेगा। क्रव आपकर अधिनियम 1961 की दितीय असुसूची में वर्षित करती तथा इसके अन्तर्यत निर्मित नियमी एवं मिन्नित्वित अतिरिक्त शतों के अपनास में माग नहीं दिवा जावेगा।) सत्तर्यन सूची में दिये गये दिवरण अधीहरताबारकर्ता को प्राप्त श्रेष्ठ जानकारी के अनुसार अधिक है किन्तु अधोहस्ताक्षरकर्ता जदघोषणा में किसी जुटि, असत्य

तिवरण अथवा चुक के लिये कराई उत्तरपायी नहीं होगा । सम्पत्ति का आरक्षित मूल्य राशि रूपये16.00 लाख निम्नानुसार तय किया गया है, जिससे कम मूल्य में सम्पत्तियों का विक्रय नहीं किया जावेगा । संपत्ति की बोली राशि रूपये 20,000 / — के गुणाक में बढाई जायेगी तथा बोली की राशि अथवा बोलीदाता के विषय में विवाद उत्पन्न होने पर वह लॉट तुस्त हं रानात के निर्देश कर कर किया जायेगा। पुन- नीलामी के लिए रख दिया जायेगा। इच्छुक बोलीदाताओं को ऊपर वर्णित वैब साईट पर पंजीकृत कराना तथा पहचान चिन्ह व पासवर्ड प्राप्त करना आवश्यक होगा जो कि सेवा प्रदाता द्वारा उपल

Road, Jagatpura, Jaipur. IFSC No. 10BA0003280 में संघारित खाता संख्या 38200200000001 में जमा करवाया जा सकेगा। अमानत राशि जमा कराये जाने का प्रमाण, पेनकाई की सत्यापित प्रतिलिपी, पते का प्रमाण तथा प्राधिकार पत्र (यदि वे किसी अन्य व्यक्ति अख्य वासिका की ओर से बोली में भाग ले रहे हैं) प्रस्तुत करने होंगे, जो कि सेवा प्रवाता 1.s. C1 India Ptt. Ltd. कर्यांत्वत अवात 18 Section-44, Gurgaon, 122093 Haryana, India, on E-mail gujarat@c1india.com and support@bankauctions.com पर भी भेज सकते हैं। इसके उपरांत नियम समय से पूर्व अधिकरण में जमा कराई जावेगी। किसी भी लोंट के लिए सर्वोच्च बोलीवाता को सफल क्रेंचा घोषित कर दिया जावेगा बशतें कि वह बोली लगाने के लिए कानूनन योग्य है एवं उसके द्वारा लगायी गयी बोली आरक्षित गूल्य से कम नहीं है। उच्चतम बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरक को किकाधीन होगा यदि प्रस्तावित गूल्य स्पन्त हो जिसे प्राप्त करना अनुवित हो। लिखित कारणों से अधोहस्ताक्षरक को आधिकार प्राप्त होगा। लिखित कारणों से अधोहस्ताक्षरकर्ता को आयकर अधिनियम की द्वितीय अनुस्ति के प्रायाभागों के अधीन विक्रय को स्थित करने का अधिकार प्राप्त होगा। लिखित कारणों से अधोहस्ताक्षरका को आयकर अधिनियम की द्वितीय अनुस्ति के द्वारा बोषणा के तुरन्त प्रशात अध्या विशेष परिस्ति में 24 घण्टों के भीतर क्य मृत्य की 25 प्रतिशत राशि चरेश को सामा की की के बात के मानले में सम्पत्ति को केता प्रोप्त करते हुए जमा करवायी जावेगी जो बैंक के उत्तर खाता सख्या 38200200000001 में जमा वायोगी, अध्या जिरिश होशी। यदि वस्ति के अधिकारी ऋण अधिकारण केता वाता किसी की विशेष से विवेद विक्र तक कामा करवी होगी। उत्तर विवेद विक्र तक कामा करवी होगी। यदि विवेद विक्र तक कामा करवी होगी। उत्तर विवेद विक्र तक कामा करवी होगी। उत्तर विवेद विक्र तक कामा करवी होगी। यदि विवेद विक्र तक कामा करवी होगी। अधिकार या अन्य अवकाश हो तो उत्तर के प्रथम कार्यावित विवेद विवेद तक कामा करवा करवा करवा होगी। उत्तर विवेद विवेद विवेद तक कामा करवा करवा करवी होगी। उत्तर विवेद विवेद तक कामा करवा करवा करवा होगी। अधिकार या अन्य अवकाश हो तो उत्तर करवा होगी। अधिकार विवेद विवेद तक कामा करवा करवा करवा होगी। अधिकार या अन्य अवकाश हो तो उत्तर केता विवेद विवेद विवेद तक कामा करवा करवा करवा होगी।

सम्पत्ति विक्रय नवीन उद्घोषणा जारी करके कर दिया जावेगा। ऐसी स्थिति में जमानदा राष्ट्रि को गृहि अशोनस्वास्थरकर्ता दाया जी

8866682937, Mobile no. +91 7291891124 /25 / 26 and Vinod Kumar-8866682931 के ऑनलाईन प्रशिक्षण का लाग उठा सकते है जो वैब www.bankeaucilons.pom पर उपलब्ध है। अमानत राशि जमा कराये जाने एवं पंजीयन की अन्तिम तिथि 01.07.2025 को सायं 03.00 बजे तक हैं। इच्छुक बोलीदाता को पंजीयन कराए जाने हेतु अ

ओसवाल ओवरसीज लिमिटेड सीआईएन:- L74899DL1984PLC018268

निष्पादन तिमाही से तिमाही बदलता रहता है।

अनुसार नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनें।

थानः नई दिल्ली दिनांकः 30.05.2025